

31<sup>st</sup> October, 2023

To,  
The Corporate Relationship Department,  
**BSE Limited**,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001.  
Security Code: **533272**

The Manager, Listing Department,  
**National Stock Exchange of India Limited**,  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai - 400 051.  
NSE Symbol: **JWL**

**Sub: - Newspaper Publication of Financial Results for the Quarter and Half Year ended  
September 30, 2023**

Dear Sir/ Madam,

We are enclosing herewith the copies of newspaper publications made on 31<sup>st</sup> October, 2023 in Financial Express (English) and Raj Express (Hindi) towards publication of Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2023 in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Copies of the aforesaid publication will also be available on the website of the Company at [www.jupiterwagons.com](http://www.jupiterwagons.com).

This is for your intimation and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,  
**For Jupiter Wagons Limited**  
*(formerly Commercial Engineers & Body Builders Co Limited)*

**Ritesh Kumar Singh**  
*Company Secretary and Compliance Officer*

**PUBLIC NOTICE**  
 Notice is hereby given that the shares certificate(s) for 225 bearing Equity share certificate. No(s) 1328552 and distinctive No(s) 1391753336-1391753560 under the folio No. 03515966 of Larsen & Toubro Limited standing in the name(s) of **DEVRAJ BAWA (DECEASED)** jointly with **NEERAJ BAWA** has/have been lost or mislaid and the undersigned has/have applied to the Company to issue duplicate share certificate(s) for the said shares.  
 Any person(s) who has any claim(s) in respect of the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad - 500032 within one month from the date else the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.  
 Name(s) of the shareholder(s)  
**NEERAJ BAWA**  
 Place : Mumbai Date : 31.10.2023

**HDFC BANK** Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015  
 \*APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8 (6)]  
**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**  
 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002  
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on **14th December 2023**, for recovery of Rs. 1,67,17,804/- o/s as on **01.11.2021** along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from  
**(i) M/s Swatantra Fabrics through its proprietor Mr. Paramjeet Singh, (ii) Mr. Paramjeet Singh, (iii) Mr. Balvinder Singh & (iv) Mrs. Poonam Kumari.** The reserve price will be Rs. 20,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 2,00,000/-.  
 Short description of the immovable property  
 Residential Flat No. 651 On Second Floor, Situated At Pocket-1, Built On Gh-1, Phase-4, Sector-29, Rohini, New Delhi-110005. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd. Secured Creditor's website.  
**https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices.**  
 Date : 31.10.2023 . Place : New Delhi Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

**HDFC BANK** Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015  
 \*APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8 (6)]  
**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**  
 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002  
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on **12th December 2023**, for recovery of Rs. 89,46,225/- o/s as on **01.03.2022** along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from  
**(i) Mrs S.S. Sports Through Its Proprietor Mr. Sunil Kumar, (ii) Mr. Sunil Kumar & (iii) Mrs. Parul Ahuja.** The reserve price will be Rs. 41,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 4,10,000/-.  
 SHORT DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY  
 Property No. 240, Measuring 60 Sq. Mtrs, First Floor, Amberhat, Dwarka Residential Scheme, Sector-19, Dwarka, Delhi. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd. Secured Creditor's website.  
**https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices.**  
 Date : 31.10.2023 . Place : New Delhi Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

**IMPORTANT**  
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**INDIAN RAILWAYS**  
**GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार**  
**MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय**  
**(RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड)**  
**CORRIGENDUM-2**  
 Subject: E-Tender no. TM-2302 for the procurement of Integrated Track Monitoring System from Zero Speed (ZITMS) and its operations and maintenance.  
 The Corrigendum-2 regarding modification of tender conditions etc. have been uploaded on website **http://ireps.gov.in**.  
 Date: 30.10.2023  
 (Rajiv Kumar Tanwar)  
 Director Track (Mod.) Railway Board,  
 Tele No. 011-47845530  
**SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE** 3388/2023

**E-AUCTION SALE NOTICE UNDER IBC, 2016**  
**Sale Notice under IBC, 2016**  
**M/s Abhinav Steels and Power Limited (in Liquidation)**  
 CIN : U74899DL1987PLC029384  
 Regd. Off (as per MCA records): 401, Mahavirji Complex LSC, Rishabh Vihar, New Delhi-110092 In  
 Liquidator's Office: CS-14, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad, 201010  
 Contact Person: Aradhana Singh - Mobile No. 8920352845  
 Date of E-auction - 25th November, 2023  
 Sale of assets of M/s Abhinav Steels and Power Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench vide order dated 02.09.2022 in C.P. (IB) - 275(ND)/2019. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform **https://www.eauctions.co.in/**

| Description                                                                                                                                                                                    | Date and Time of E-Auction                                                              | Reserve Price (INR) | Submission of EMD Amount                                   | Bid Incremental value |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BLOCK-1:</b> Composite Block of all the assets as mentioned below in Block No. 2 & 3                                                                                                        | <b>25-11-2023</b><br>(12.30 P.M. to 1.30 P.M.) with unlimited extension of 5 min. each. | ₹ 55,59,47,635/-    | ₹ 2,77,97,382/- on or before 23-11-2023, before 12:30 P.M. | ₹ 50,00,000/-         |
| <b>BLOCK-2:</b> Land & Building of Abhinav Steels and Power Limited situated at Plot no. A-42, 43, 44, 45, 46 & 47 Satharia Industrial Development Authority, Satharia, Jaunpur Uttar Pradesh. | <b>25-11-2023</b><br>(02.30 P.M. to 3.30 P.M.) with unlimited extension of 5 min. each. | ₹ 18,48,61,176/-    | ₹ 92,43,059/- on or before 23-11-2023, before 2:30 P.M.    | ₹ 20,00,000/-         |
| <b>BLOCK-3:</b> Plant & Machinery of Abhinav Steels & Power Limited situated at Plot no. A-42, 43, 44, 45, 46 & 47 Satharia Industrial Development Authority, Satharia, Jaunpur Uttar Pradesh. | <b>25-11-2023</b><br>(4.30 P.M. to 5.30 P.M.) with unlimited extension of 5 min. each.  | ₹ 37,10,86,459/-    | ₹ 1,85,54,323/- on or before 23-11-2023, before 4:30 P.M.  | ₹ 30,00,000/-         |

**Genus**  
 energizing lives  
**GENUS PRIME INFRA LIMITED**  
 (Formerly Gulshan Chemfil Limited)  
 Regd. Office : Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, Uttar Pradesh  
 Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020  
 Ph.: 0591-2511242, E-mail: cs.genusprime@gmail.com, Website: www.genusprime.com, CIN: L24117UP2000PLC032010

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023**  
 (Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

| S. No. | Particulars                                                                                                                                  | STANDALONE               |           |                          |           |                          |          | CONSOLIDATED             |           |                          |           |                          |          | Year Ended 31.03.2023 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                              | Quarter Ended 30.09.2023 |           | Quarter Ended 30.09.2022 |           | Quarter Ended 30.09.2021 |          | Quarter Ended 30.09.2023 |           | Quarter Ended 30.09.2022 |           | Quarter Ended 30.09.2021 |          |                       |
|        |                                                                                                                                              | Unaudited                | Unaudited | Unaudited                | Unaudited | Unaudited                | Audited  | Unaudited                | Unaudited | Unaudited                | Unaudited | Unaudited                | Audited  |                       |
| 1      | Total income from operations                                                                                                                 | 5.31                     | 7.41      | 4.48                     | 12.72     | 10.14                    | 18.95    | 6.25                     | 8.24      | 5.59                     | 14.49     | 11.96                    | 22.02    |                       |
| 2      | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)                                                      | (0.16)                   | (0.84)    | 0.16                     | (1.00)    | (2.55)                   | (0.85)   | (199.55)                 | (1.07)    | 0.20                     | (200.62)  | (2.64)                   | (0.77)   |                       |
| 3      | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)                                                 | (0.16)                   | (0.84)    | 0.16                     | (1.00)    | (2.55)                   | (0.85)   | (199.55)                 | (1.07)    | 0.20                     | (200.62)  | (2.64)                   | (0.77)   |                       |
| 4      | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)                                                  | (0.16)                   | (0.84)    | 0.16                     | (1.00)    | (2.55)                   | (0.85)   | (199.55)                 | (1.07)    | 0.20                     | (200.62)  | (2.64)                   | (0.77)   |                       |
| 5      | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | (0.16)                   | (0.84)    | 0.16                     | (1.00)    | (2.55)                   | (268.45) | (199.55)                 | (1.07)    | 0.20                     | (200.62)  | (2.64)                   | (246.33) |                       |
| 6      | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.2/- each)                                                                                     | 298.53                   | 298.53    | 298.53                   | 298.53    | 298.53                   | 298.53   | 298.53                   | 298.53    | 298.53                   | 298.53    | 298.53                   | 298.53   |                       |
| 7      | Reserves (excluding Revaluation Reserve)                                                                                                     | -                        | -         | -                        | -         | -                        | -        | -                        | -         | -                        | -         | -                        | -        |                       |
| 8      | Earnings Per Share (of Face value of Rs.2/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)                                                         | -                        | (0.01)    | -                        | (0.01)    | (0.02)                   | (0.01)   | (1.34)                   | (0.01)    | -                        | (1.34)    | (0.20)                   | (0.01)   |                       |
|        | Diluted:                                                                                                                                     | -                        | (0.01)    | -                        | (0.01)    | (0.02)                   | (0.01)   | (1.34)                   | (0.01)    | -                        | (1.34)    | (0.20)                   | (0.01)   |                       |

**Notes:**  
 1. The above financial results of Genus Prime Infra Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 30th October, 2023. The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of the financial results.  
 2. The Above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.  
 3. Previous year/period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year classification.

For and on behalf of the Board of Directors  
 (Amit Agarwal)  
 Whole Time Director & CEO  
 DIN: 00016133

Place: Moradabad  
 Date: October 30, 2023

**AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED**  
 Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 (CIN: L45101DL1979PLC009654)  
 Website: www.aclinet.com  
 E-mail: cs.corporateoffice@aclinet.com

**NOTICE**  
 Pursuant to Regulations 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Friday, November 10, 2023 through physical / virtual / video conferencing. Inter alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) with limited review report by the Statutory Auditors of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2023 and other agenda items, if any.  
 Further in continuation of our intimation on closure of trading window on 28th September, 2023 and pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company shall remain closed for all designated persons and their immediate relatives till 12th November 2023.  
 For Ahluwalia Contracts (India) Ltd  
 Sd/-  
 Place: New Delhi (Vipin Kumar Tiwari)  
 Date: 30.10.2023 Company Secretary

**Form No. INC-26**  
 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
 Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi in the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
**AND**  
 In the matter of **SWAKSHI TEXTILES PRIVATE LIMITED** (CIN: U17290DL2010PTC208362) having its Registered Office at SB/H11, POCKET-5B SECTOR-4, ROHINI, Delhi-110085  
 .....Applicant Company / Petitioner  
**NOTICE** is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 05th October, 2023 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".  
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the **MCA-21 portal (www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below: SB/H11, POCKET-5B SECTOR-4, ROHINI, DELHI-110085  
 For & on behalf of **SWAKSHI TEXTILES PRIVATE LIMITED**  
 Sd/-  
**DELINDER KUMAR JAIN**  
 (DIRECTOR)  
 DIN: 02318892  
 Date: 30.10.2023  
 Place: Delhi

**INDIAN BANK** Zonal Office- Civil Lines, Moradabad  
**POSSESSION NOTICE** (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)  
 Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the INDIAN BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 issued a demand notice and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.  
 The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIAN BANK. for the amounts and interest thereon.  
 The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of properties where possession had been taken is as follows:

| Sr. No. | Name of the Borrower/ Guarantor/Mortgagor/ Branch Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description of the Immovable Property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Outstanding amount u/s 13(2)                            | Date of Demand Notice | Date of Possession |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.      | <b>M/S J.V.D Engineers and Contractors (Firm)</b> , Address-221-C Prem Nagar Bareilly 2. <b>Mrs. Shivani Saxena (Partner, Guarantor, Mortgagor)</b> W/o Mr. Vinit Kumar Saxena, R/O 221 C Prem Nagar Bareilly 3. <b>Mr. Anuj Saxena (Partner)</b> S/o Mr. Shyam Murari Lal Saxena, R/O 221 C Prem Nagar Bareilly 4. <b>Mr. Prasant Suman (Partner and Guarantor)</b> S/o Jagdish Bahadur Suman, R/O 222 Prem Nagar Bareilly 5. <b>Mr. Surendra Kumar Sharma (Partner and Guarantor)</b> S/o Baleshwar Sharma R/O Vill and Post-Moma Muzaffar Nagar Bihar 6. <b>Mr. Vineet Kumar Saxena (Mortgagor and Guarantor)</b> S/o Shyam Murari Lal Saxena R/O 307-G Dehradun Kalika Dharchula, Pithoragarh Branch: Nagaryia Parikshit, Bareilly | All that part and parcel of the property consisting of House No 285,Type C situated at Utsav Mahanagar -II Bareilly Uttar Pradesh having size of land Measuring 167.07 Sqm in the name of Mrs.Shivani Saxena W/o Mr. Vineet Kumar Saxena (Partner, Guarantor & Mortgagor) and Mr. Vineet Kumar Saxena S/o Mr. Shyam Murari Lal Saxena (Guarantor & Mortgagor) <b>Bounded: On the North by:</b> Plot No. 281 & 282 Type - C <b>On the South by:</b> Plot No. 286 Type-C <b>On the East by:</b> Plot No. 294 Type-C <b>On the West by:</b> Rasta Pvt 30 feet thereafter land Road 9.00M Wide | <b>9,25,932.00</b> + Interest Legal and other expenses  | 12.05.2023            | 27.10.2023         |
| 2.      | <b>Mr. Amjad (Borrower cum Mortgagor)</b> , S/o Mr. Amjuhi R/O Ward No. 36 Sanjaya Rani Mewa Kunwar CB Ganj Bareilly 2. <b>Mr. Tarik Kamran (Guarantor)</b> , S/O Ibadullah Abbasi, R/O 77Bankhaha Bareilly 3. <b>Mr. Mohd. Akram (Guarantor)</b> , S/o Late Ismail, R/O- Partapur Jeevan Sahay Pilibhit Road Bareilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | All that part and parcel of the property consisting of Plot at Part of Gata No. 547 and 548 measuring 98.47 Sq Mt. in Sanaiya Rani Mew Kunwar Near Khurso College Distt. - Bareilly through Sale Deed registered at Bahi Number 1, Zild No.- 10558 on page number 1 to 46 at Serial Number 10719 in the office of SubRegistrar Bareilly-II on 27/10/2018. <b>Bounded: On the North by:</b> Rasta 18ft Wide <b>On the South by:</b> Aarazi of Seller <b>On the East by:</b> Aarazi of other person <b>On the West by:</b> Aarazi of Seller                                                  | <b>20,67,584.00</b> + Interest Legal and other expenses | 04.02.2023            | 25.10.2023         |

Dated: 30.10.2023 Place: Bareilly, Pithoragarh Authorized Officer, INDIAN BANK

**STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED**  
 Regd. Off: G-17, Krishna Apra, Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura New Delhi 110034  
 CIN: L74899DL1987PLC027057  
 E-mail: info@stancap.co.in, stancap.delhi@gmail.com, Website: http://www.stancap.co.in, Tel: 011-40154984

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2023** (Rs. In lakhs)

| Sl. No. | Particulars                                                                                                                                  | Quarter ended          | Half Year ended        | Year ended             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                              | 30-Sept-23 (Unaudited) | 30-Sept-23 (Unaudited) | 30-Sept-22 (Unaudited) |
| 1       | Total Income from Operations                                                                                                                 | 565.42                 | 1117.21                | 142.13                 |
| 2       | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)                                                      | 322.76                 | 629.55                 | 19.94                  |
| 3       | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)                                                 | 322.76                 | 661.55                 | 19.94                  |
| 4       | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)                                                  | 230.52                 | 489.55                 | 14.76                  |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 230.52                 | 489.55                 | 14.76                  |
| 6       | Paid up Equity Share Capital                                                                                                                 | 4900.01                | 4900.01                | 400.01                 |
| 7       | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized for quarter)                                                                           |                        |                        |                        |
|         | 1. Basic                                                                                                                                     | Rs.0.47                | Rs.1.00                | Rs.0.37                |
|         | 2. Diluted                                                                                                                                   | Rs.0.47                | Rs.1.00                | Rs.0.37                |

**Notes:**  
 1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's Website at [www.stancap.co.in](http://www.stancap.co.in).  
 2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 30-Oct-2023.  
 By the Order of the Board  
 For Standard Capital Markets Limited  
 Sd/-  
**Ram Gopal Jindal**  
 Managing Director  
 DIN-06583160  
 Place: New Delhi  
 Date: 30.10.2023

**JUPITER WAGONS LIMITED**  
 (FORMERLY COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO LIMITED)  
 CIN: L28100MP1979PLC049375  
 Regd. office : 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

**Extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter / Half Year Ended September 30, 2023**  
 Rs. in Lakhs

| Sl. No. | Particulars                                                                                                                                 | Standalone        |              |                                              |                   |                   |             | Consolidated      |              |                                              |                   |                   |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                             | Quarter Ended     |              | Preceding quarter ended in the previous year |                   | Half Year Ended   |             | Quarter Ended     |              | Preceding quarter ended in the previous year |                   | Half Year Ended   |             |
|         |                                                                                                                                             | 30 September 2023 | 30 June 2023 | 30 September 2022                            | 30 September 2023 | 30 September 2022 | 31 Mar 2023 | 30 September 2023 | 30 June 2023 | 30 September 2022                            | 30 September 2023 | 30 September 2022 | 31 Mar 2023 |
| 1       | Total Income from Operations                                                                                                                | 88,468.24         | 75,540.64    | 41,770.42                                    | 1,64,008.88       | 71,427.74         | 2,07,333.45 | 88,508.37         | 75,540.64    | 41,770.42                                    | 1,64,049.01       | 71,427.74         | 2,07,333.45 |
| 2       | Net Profit for the period (before Tax)                                                                                                      | 10,901.73         | 8,464.71     | 3,719.90                                     | 19,366.44         | 5,702.76          | 20,519.09   | 10,951.18         | 8,390.23     | 3,645.26                                     | 19,341.41         | 5,567.97          | 20,049.03   |
| 3       | Net Profit for the period (after tax)                                                                                                       | 8,158.09          | 6,359.91     | 2,480.38                                     | 14,518.00         | 3,821.61          | 12,537.57   | 8,207.54          | 6,285.43     | 2,405.74                                     | 14,492.97         | 3,686.82          | 12,067.51   |
| 4       | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 8,155.67          | 6,407.33     | 2,488.34                                     | 14,563.00         | 3,862.77          | 12,527.90   | 8,205.12          | 6,332.85     | 2,413.70                                     | 14,537.97         | 3,727.98          | 12,057.84   |
| 5       | Equity Share Capital                                                                                                                        | 39,948.70         | 39,948.70    | 38,744.74                                    | 39,948.70         | 38,744.74         | 38,744.74   | 39,948.70         | 39,948.70    | 38,744.74                                    | 39,948.70         | 38,744.74         | 38,744.74   |
| 6       | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)                                                                                                       |                   |              |                                              |                   |                   |             |                   |              |                                              |                   |                   |             |
|         | 1. Basic:                                                                                                                                   | 2.04              | 1.62         | 0.64                                         | 3.66              | 0.99              | 3.24        | 2.05              | 1.60         | 0.62                                         | 3.65              | 0.95              | 3.12        |
|         | 2. Diluted:                                                                                                                                 | 2.04              | 1.62         | 0.64                                         | 3.66              | 0.99              | 3.24        | 2.05              | 1.60         | 0.62                                         | 3.65              | 0.95              | 3.12        |

**Notes:**  
 1. The above Statement for the quarter and half year ended 30 September 2023 of Jupiter Wagons Limited (Formerly known as Commercial Engineers & Body Builders Co Limited) ("the Company"), has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 29 October 2023.  
 2. These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.  
 3. On 15 May 2023, the Company has approved the issue and allotment of 12,039,511 fully paid-up equity shares of the Company to eligible Qualified Institutional Buyers in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 at an issue price of Rs. 103.75 per share (including securities premium of Rs. 93.75 per share) for a consideration of Rs. 12,491.10 lakhs. Pursuant to the allotment of these shares the paid-up equity share capital of the Company increased from Rs. 38,744.74 lakhs comprising 387,447.419 fully paid-up equity shares to Rs. 39,948.70 lakhs comprising 399,487,030 fully paid-up equity shares.  
 4. In the Insolvency Resolution Process of Corporate Person (CIRP) as per the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 of Stone India Limited (SIL), Hon'ble NCLT, Kolkata Bench, vide its order No. IA (IB) 1335 of 2022 in CP IB 565 KB 2020 dated 08 June 2023 has approved the Resolution Plan (ARF) submitted by Jupiter Wagons Limited and consequently Jupiter Wagons Limited is now Successful Resolution Applicant.  
 The current day to day affairs of the SIL is being managed by the Monitoring Committee, headed by the Resolution Professional. The process of payment of the relevant stakeholders, transfer of assets, issue of equity shares, constitution of Board of Directors and other statutory formalities of filing the necessary forms with various authorities, as applicable, are in progress. The SIL is also in the process of closing its books for prior years as well as for the current period ended 30 September 2023. The control of the SIL will be transferred to the Company only upon completion of all the above-mentioned processes. Considering the reasons as stated above and the on-going process of filing of statutory forms with various authorities, in view of the management, the control of SIL has not yet been transferred to the Company as evaluated under the principles of Ind AS 110, "Consolidated Financial Statements".  
 5. During the quarter, subsequent to obtaining approval of the Shareholders in the AGM, the company has paid final dividend of Re. 0.50 per equity share for the FY2022-23. The total outflow on this account was Rs. 1,997.44 lakhs  
 6. The Company is in the process of raising funds aggregating up to Rs 70,000 lakhs through Qualified Institutional Placement ("QIP") in terms of Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "CDR Regulations") and/or any other permissible mode(s), in accordance with the ICDR Regulations and other applicable regulations, through public and/or private offerings of equity shares and/or any other convertible securities. The Board of Directors of the Company have passed the Resolution in this regard dated 5 September 2023.  
 7. The Group is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons in India. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not applicable.  
 8. These results have been filed with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and is also available on the Company's website at [www.jupiterwagons.com](http://www.jupiterwagons.com).

For and on behalf of the Board  
 Sd/-  
**Vivek Lohia**  
 Managing Director  
 DIN-00574035

Place - Kolkata  
 Date - 29th October, 2023

**ADITYA BIRLA CAPITAL**  
**Aditya Birla Housing Finance Limited**  
 Registered Office- Indian Rayon Compound, Varanasi, Gujarat - 362266  
 Branch Office- Aditya Birla Housing Finance Limited No N/17, 1st Floor, Vijaya Building, Barkhamba Road, New Delhi - 110001

**APPENDIX IV [See Rule**

